



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 865]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 27, 2017/चैत्र 6, 1939

No. 865]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 27, 2017/CHAITRA 6, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2017

सं. 43/2015-20

विषय: खाद्य तेल की निर्यात नीति में संशोधन।

**का.आ. 968(अ).**—विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथासंशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 की क्रम सं. 92 से संबंधित दिनांक 06.02.2015 की अधिसूचना सं. 108 (आरई-2013)/2009-14 और दिनांक 06.8.2015 की अधिसूचना सं. 17/2015-20 के साथ पठित दिनांक 18.06.2013 की अधिसूचना सं. 22 (आरई-2013)/2009-14 में तत्काल प्रभाव से संशोधन करती है।

2. खाद्य तेल के निर्यात पर प्रारंभ में दिनांक 17.3.2008 की अधिसूचना सं. 85 द्वारा 17.03.2008 से एक वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाई गई थी जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया था। दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 की अधिसूचना सं. 24 (आरई-2012)/2009-14 के द्वारा खाद्य तेल के निर्यात पर रोक अगले आदेशों तक बढ़ा दी गई है।

3. खाद्य तेल के निर्यात संबंधी रोक पर निम्नलिखित छूट की अनुमति दी गई है:

(क) अरंडी का तेल

(ख) सभी ईडी आई पत्तनों और भारत-नेपाल, भारत-बांग्लादेश, भारत-भूटान तथा भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर स्थित सभी भू-सीमा-शुल्क कार्यालयों (एलसीएस) के माध्यम से ना रियल का तेल।

(ग) निर्यात किए जाने वाले गैर खाद्य माल के उत्पादन के लिए 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों को डीटीए से खाद्य तेलो (इनपुट कच्चे माल के रूप में) के मान्य निर्यात।

(घ) लागू मूल्य संवर्धन मानकों के अधीन संसाधित खाद्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए एसईजेड यूनिट द्वारा खपत किए जाने हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) से खाद्य तेल प्रदान करना।

- (ड.) आईटीसी (एचएस) कोड 15159010, 15159020, 15159030, 15159040, 15179010 और 15219020 के तहत लघुवन्ध उत्पादों से उत्पादित खाद्य तेल।
- (च) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा 'आर्गेनिक' के रूप में पंजीकृत और प्रमाणित किए जा रहे निर्यात संविदा के अधीन आर्गेनिक खाद्य तेल।
- (छ) थोक में राइसब्रान ऑयल चाहे पैक साइज कोई भी हो।
- (ज) थोक में मूंगफलीतेल, तिल का तेल, सोयाबीन तेल और मक्के (कॉर्न) का तेल, चाहे पैक साइज कोई भी हो।
4. 900 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के तहत 5 किग्रा. तक के ब्रान्डेड उपभोक्ता पैक में खाद्य तेल का निर्यात अनुमत है।
5. **इस अधिसूचना का प्रभाव:—**  
थोक में मूंगफली तेल, तिल के तेल, सोयाबीन तेल और मक्के (कॉर्न) के तेल, चाहे पैक साइज जो भी हो, के निर्यात को खाद्य तेलों के निर्यात पर लगी रोक से छूट प्रदान की गई है।

[फा. सं. 01/91/180/774/एम10/निर्यात प्रकोष्ठ(पार्ट)]

ए. के. भल्ला, महानिदेशक, विदेश व्यापार

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

[DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE]

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2017

**No. 43/2015—20**

**Subject: Amendment in export policy of edible oils.**

**S.O. 968(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No.22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2015-20, the Central Government hereby amends, with immediate effect, Notification No 22(RE-2013)/2009-14 dated 18.06.2013 read with Notification No 108(RE-2013)/2009-14 dated 06.02.2015 and Notification No. 17/2015-20 dated 06.08.2015 relating to Sl. No. 92 of Schedule 2 of ITC(HS) Classification of Export & Import Items.

2. Export of edible oils was initially prohibited for a period of one year with effect from 17.03.2008 vide Notification No. 85 dated 17.03.2008 which was extended from time to time. Vide Notification No. 24(RE-2012)/2009-14 dated 19<sup>th</sup> October 2012, prohibition on export of edible oil has been extended till further orders.

3. The following exemptions are permitted from the prohibition on export of edible oils:

- (a) Castor oil
- (b) Coconut oil from all EDI Ports and through all Land Custom Stations (LCS) on Indo-Nepal, Indo-Bangladesh, Indo-Bhutan and Indo-Pakistan borders.
- (c) Deemed export of edible oils (as input raw material) from DTA to 100% EOUs for production of non-edible goods to be exported
- (d) Edible oils from Domestic Tariff Area (DTA) to Special Economic Zones (SEZs) to be consumed by SEZ units for manufacture of processed food products, subject to applicable value addition norms

- (e) Edible oils produced out of minor forest produce, ITC(HS) Code 15159010, 15159020, 15159030, 15159040, 15179010 and 15219020.
  - (f) Organic edible oils subject to export contracts being registered and certified as 'Organic' by Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA).
  - (g) Rice Bran oil in bulk, irrespective of any pack size
  - (h) Groundnut oil, Sesame oil, Soyabean oil and Maize (Corn) oil in bulk, irrespective of any pack size.
4. Export of edible oils in branded consumer packs of upto 5 Kgs is permitted with a Minimum Export Price (MEP) of USD 900 per MT.

**5. Effect of this notification:**

Export of Groundnut oil, Sesame oil, Soyabean oil and Maize (Corn) oil in bulk, irrespective of any pack size, has been exempted from the prohibition on export of edible oils.

[F. No. 01/91/180/774/AM10/Export Cell(Pt.)]

A. K. BHALLA, Director General of Foreign Trade